

क्या कोविड-19 की वैक्सीन सुरक्षित है?

ct.gov/covidvaccine



उपयोग की जा रही सभी कोविड-19 वैक्सीन यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अध्ययन से गुजरी है कि वे यथासंभव सुरक्षित हैं।

- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि परीक्षण (FDA) ने दो कोविड-19 वैक्सीन आपातकालीन उपयोग का अनुमोदन (EUA) की अनुमति दी है – **Pfizer-BioNTech** और **Moderna** से – व्यापक क्लिनिकल परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभाव के निष्कर्षों को प्रदर्शित करते डेटा के साथ। यह डेटा दर्शाता है कि इस वैक्सीन के ज्ञात और संभावित लाभ कोविड-19 के संक्रमण के कारण होने वाले ज्ञात और संभावित नुकसान से बहुत अधिक हैं।
- केवल Pfizer वैक्सीन का ही **कई महीनों की अवधि में बिना किसी गंभीर घटना के 40,000 से अधिक लोगों पर परीक्षण किया था।** संघीय सरकार और गवर्नर Lamont के वैक्सीन सलाहकार समूह की वैज्ञानिक उपसमिति की समीक्षा के बिना कोई भी वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध नहीं होगी। Connecticut में, हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ हर निर्णय को शीर्ष प्राथमिकता के रूप में लेना जारी रखा है।

और जानें:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या हैं?

आपको कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो आपके शरीर में बनने वाली सुरक्षा के सामान्य लक्षण हैं। ये दुष्प्रभाव दैनिक गतिविधियाँ करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- जहाँ आपको वैक्सीन लगाई है वहाँ दर्द और हाथ में सूजन
- बुखार
- ठंड लगना
- थकान
- सरदर्द

यदि मुझे पहले से स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो क्या वैक्सीन लेना सुरक्षित है?

हाँ कोविड-19 वैक्सीन पहले से ही हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन बीमारियों वाले लोगों को कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना अधिक है। इन बीमारियों वाले लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है।

मुझे अन्य खुराक से एलर्जी हुई है, क्या मैं कोविड-19 वैक्सीन ले सकता हूँ?

जिन लोगों को पूर्व में इंजेक्ट की जाने वाली दवाओं से एलर्जी की समस्या हुई है, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से पहले अपने चिकित्सा प्रदाताओं के साथ परामर्श करना चाहिए। आपका प्रदाता यह चर्चा कर सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से कौन सी एलर्जी आपके लिए जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन यह अधिकांश मामलों में सुरक्षित साबित हुई है।

यदि मैं गर्भवती या नर्सिंग में हूँ तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ?

क्या कोविड-19 वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है?

वर्तमान में वैक्सीन केवल 16 से अधिक उम्र के लोगों के लिए अनुमोदित है।

जो लोग पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, क्या वे वैक्सीन लगवा सकते हैं?

हाँ यदि आप पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं तो भी CDC आपको वैक्सीन लेने की सलाह देता है, क्योंकि दोबारा संक्रमण होना संभव है। कोविड-19 से उबरने के बाद आपमें कुछ अल्पकालिक प्रतिरक्षा सुरक्षा ली हो सकती है लेकिन हम नहीं जानते कि यह सुरक्षा कितने समय तक चलेगी।

वैक्सीन लगवाना स्वयं और दूसरों को कोविड-19 से बचाने के लिए किए उठाए जाने वाले कई कदमों में से एक है।

कुछ लोगों में, कोविड-19 गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकता है। वैक्सीन लगवाना न केवल आपको कोविड-19 से बचाता है, बल्कि यह उसके प्रसार को रोककर आपके आस-पास के लोगों को भी बचाता है। महामारी को रोकने के लिए रोकथाम के लिए उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करना आवश्यक है। वैक्सीन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम करती हैं इसलिए आपका शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार होगा। अन्य कदम, जैसे मास्क और शारीरिक दूरी, आपके वायरस के संपर्क में आने और इसे दूसरों तक फैलाने की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन और स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए CDC की सलाह का पालन करना, दोनों एक साथ कोविड-19 से सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करेंगे।

स्रोत

- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
- portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs

GET THE
FACTS
ON THE
VAX

